

# Series EF1GH/3



SET~2

प्रश्न-पत्र कोड Q.P. Code

रोल नं. Roll No.

परीक्षार्थी प्रश्न-पत्र कोड को उत्तर-पृस्तिका के मुख-पृष्ठ पर अवश्य लिखें ।

Candidates must write the Q.P. Code on the title page of the answer-book.

# गणित **MATHEMATICS**

निर्धारित समय : 3 घण्टे

अधिकतम अंक : 80

Time allowed: 3 hours

Maximum Marks: 80

# नोट / NOTE :

- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में मृद्रित पृष्ठ 23 हैं। Please check that this question paper contains 23 printed pages.
- प्रश्न-पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए प्रश्न-पत्र कोड को परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर लिखें ।
  - Q.P. Code given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer-book by the candidate.
- कृपया जाँच कर लें कि इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं। Please check that this question paper contains 38 questions.
- कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले, उत्तर-पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें ।

Please write down the serial number of the question in the answer-book before attempting it.

- इस प्रश्न-पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है । प्रश्न-पत्र का वितरण (v) पूर्वाह्न में 10.15 बजे किया जाएगा । 10.15 बजे से 10.30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न-पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर-पृश्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे।
  - 15 minute time has been allotted to read this question paper. The question paper will be distributed at 10.15 a.m. From 10.15 a.m. to 10.30 a.m., the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer-book during this period.

65/3/2

Page 1







# सामान्य निर्देश :

निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पिंढ़ए और उनका सख़्ती से पालन कीजिए:

- (i) इस प्रश्न-पत्र में 38 प्रश्न हैं । सभी प्रश्न अनिवार्य हैं ।
- (ii) यह प्रश्न-पत्र **पाँच** खण्डों में विभाजित है **क. ख. ग. घ** एवं **ङ**।
- (iii) खण्ड क में प्रश्न संख्या 1 से 18 तक बहुविकल्पीय तथा प्रश्न संख्या 19 एवं 20 अभिकथन एवं तर्क आधारित एक-एक अंक के प्रश्न हैं।
- (iv) **खण्ड ख** में प्रश्न संख्या **21** से **25** तक अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के **दो-दो** अंकों के प्रश्न हैं।
- (v) **खण्ड ग** में प्रश्न संख्या **26** से **31** तक लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के **तीन-तीन** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vi) खण्ड घ में प्रश्न संख्या 32 से 35 तक दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के **पाँच-पाँच** अंकों के प्रश्न हैं।
- (vii) **खण्ड ङ** में प्रश्न संख्या **36** से **38** प्रकरण अध्ययन आधारित **चार-चार** अंकों के प्रश्न हैं।
- (viii) प्रश्न-पत्र में समग्र विकल्प नहीं दिया गया है। यद्यपि, खण्ड ख के 2 प्रश्नों में, खण्ड ग के 3 प्रश्नों में, खण्ड घ के 2 प्रश्नों में तथा खण्ड ङ के 2 प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान दिया गया है।
- (ix) कैल्कुलेटर का उपयोग **वर्जित** है।

#### खण्ड क

इस खण्ड में बहविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है।

- 1.  $\int 2^{x+2} dx \text{ बराबर है :}$ 
  - (a)  $2^{x+2} + C$

(b)  $2^{x+2} \log 2 + C$ 

 $(c) \qquad \frac{2^{x+2}}{\log\,2} + C$ 

- (d)  $2 \cdot \frac{2^x}{\log 2} + C$
- 2. माना A एक कोटि 3 का विषम-सममित आव्यूह है । यदि |A| = x है, तो  $(2023)^x$  बराबर है :
  - (a) 2023

(b)  $\frac{1}{2023}$ 

(c)  $(2023)^2$ 

(d) 1

65/3/2 **~~~** 



#### General Instructions:

Read the following instructions very carefully and strictly follow them:

- *(i)* This question paper contains 38 questions. All questions are compulsory.
- (ii) This question paper is divided into **five** Sections – A, B, C, D and E.
- (iii) In **Section A**, Questions no. 1 to 18 are multiple choice questions (MCQs) and questions number 19 and 20 are Assertion-Reason based questions of 1 mark each.
- (iv)In **Section B,** Questions no. **21** to **25** are very short answer (VSA) type questions, carrying 2 marks each.
- (v)In **Section C**, Questions no. **26** to **31** are short answer (SA) type questions, carrying 3 marks each.
- (vi)In **Section D**, Questions no. **32** to **35** are long answer (LA) type questions carrying 5 marks each.
- In Section E, Questions no. 36 to 38 are case study based questions carrying (vii) 4 marks each.
- (viii) There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 2 questions in Section B, 3 questions in Section C, 2 questions in Section D and 2 questions in Section E.
- (ix)Use of calculators is **not** allowed.

#### SECTION A

This section comprises multiple choice questions (MCQs) of 1 mark each.

 $\int 2^{x+2} dx$  is equal to:

(a) 
$$2^{x+2} + C$$

(b) 
$$2^{x+2} \log 2 + C$$

(c) 
$$\frac{2^{x+2}}{\log 2} + C$$

(d) 
$$2 \cdot \frac{2^x}{\log 2} + C$$

- Let A be a skew-symmetric matrix of order 3. If |A| = x, then  $(2023)^x$  is 2. equal to:
  - (a) 2023

(b)

 $(2023)^2$ (c)

(d)

65/3/2



Page 3

3. 
$$\int\limits_0^2 \sqrt{4-x^2} \, \mathrm{d}x$$
 बराबर है :

(a) 2 log 2

(b)  $-2 \log 2$ 

(c)  $\frac{\pi}{2}$ 

- (d) π
- 4. अवकल समीकरण  $\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0$  का हल है :
  - (a)  $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = C$

(b)  $\log x - \log y = C$ 

(c) xy = C

- (d) x + y = C
- 5. अवकल समीकरण  $\frac{d^2y}{dx^2}\sin y + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\cos y = \sqrt{y}$  की कोटि तथा घात का गुणनफल क्या है ?
  - (a) 3

(b) 2

(c) 6

- (d) परिभाषित नहीं
- **6.** बिंदुओं A तथा B के निर्देशांक क्रमश: (1, 2, -1) तथा (3, 4, 0) हैं, तो सिदश  $\overrightarrow{BA}$  के दिक्-कोसाइन हैं :
  - (a) -2, -2, -1

(b)  $-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}$ 

(c) 2, 2, 1

- (d)  $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$
- 7.  $\overrightarrow{a}$  तथा  $\overrightarrow{b}$  ऐसे दो शून्येतर सिदश हैं कि  $\overrightarrow{a}$  का  $\overrightarrow{b}$  पर प्रक्षेप शून्य है ।  $\overrightarrow{a}$  तथा  $\overrightarrow{b}$  के बीच का कोण है :
  - (a)  $\frac{\pi}{2}$

(b) π

(c)  $\frac{\pi}{4}$ 

- (d) 0
- 8.  $\triangle$  ABC में,  $\overrightarrow{AB} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$  तथा  $\overrightarrow{AC} = 3\hat{i} \hat{j} + 4\hat{k}$  हैं । यदि BC का मध्य-बिन्दु D है, तो सदिश  $\overrightarrow{AD}$  बराबर है :
  - (a)  $4\ddot{i} + 6\dot{k}$

(b)  $2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ 

(c)  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ 

(d)  $2\dot{i} + 3\dot{k}$ 

65/3/2



3. 
$$\int_{0}^{2} \sqrt{4-x^2} \, dx \text{ equals}:$$

(a)  $2 \log 2$  (b)  $-2 \log 2$ 

(c)

- (d)
- The solution of the differential equation  $\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0$  is : 4.
  - (a)  $\frac{1}{x} + \frac{1}{v} = C$

(b)  $\log x - \log y = C$ 

(c) xy = C

- (d) x + y = C
- **5.** What is the product of the order and degree of the differential equation  $\frac{d^2y}{dx^2}\sin y + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\cos y = \sqrt{y} ?$ 
  - (a)

(b)

(c)

- (d) not defined
- The direction cosines of vector  $\overrightarrow{BA}$ , where coordinates of A and B are 6. (1, 2, -1) and (3, 4, 0) respectively, are:
  - (a) -2, -2, -1

(b)  $-\frac{2}{3}$ ,  $-\frac{2}{3}$ ,  $-\frac{1}{3}$ 

(c) 2, 2, 1

- (d)  $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$
- $\overrightarrow{a}$  and  $\overrightarrow{b}$  are two non-zero vectors such that the projection of  $\overrightarrow{a}$  on  $\overrightarrow{b}$ **7.** is 0. The angle between  $\overrightarrow{a}$  and  $\overrightarrow{b}$  is:
  - (a)

(b)

(c)

- (d) 0
- In  $\triangle$  ABC,  $\overrightarrow{AB} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$  and  $\overrightarrow{AC} = 3\hat{i} \hat{j} + 4\hat{k}$ . If D is mid-point of BC, then vector  $\overrightarrow{AD}$  is equal to :
  - $4\hat{i} + 6\hat{k}$ (a)

(b)  $2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ 

(c)  $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ 

(d)  $2\dot{i} + 3\dot{k}$ 

65/3/2

Page 5

- **9.**  $\overline{a}$   $\overline{a}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{a}$   $\overline{b}$   $\overline{$ 
  - (a) (1, 2)

(b)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$ 

(c)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 

- (d) (0, 0)
- 10. दो घटनाओं A तथा B के लिए, यदि  $P(\overline{A})=\frac{1}{2}$ ,  $P(\overline{B})=\frac{2}{3}$  तथा  $P(A\cap B)=\frac{1}{4}$  है, तो  $P\left(\frac{\overline{A}}{\overline{B}}\right)$  बराबर है :
  - (a)  $\frac{3}{8}$

(b)  $\frac{8}{9}$ 

(c)  $\frac{1}{8}$ 

- (d)  $\frac{1}{4}$
- 11. k का वह मान जिसके लिए फलन  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \ge 0 \\ kx, & x < 0 \end{cases}$  x = 0 पर अवकलनीय है, है :
  - (a) 1

- (b) 2
- (c) कोई भी वास्तविक संख्या
- (d) 0
- 12.  $\overline{u}$   $y = \frac{\cos x \sin x}{\cos x + \sin x}$   $\frac{dy}{dx}$   $\frac{dy}{dx}$   $\frac{dy}{dx}$ 
  - (a)  $-\sec^2\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$
- (b)  $\sec^2\left(\frac{\pi}{4} \mathbf{x}\right)$
- (c)  $\log \left| \sec \left( \frac{\pi}{4} x \right) \right|$
- (d)  $-\log \left| \sec \left( \frac{\pi}{4} \mathbf{x} \right) \right|$
- 13. रैखिक प्रोग्रामन समस्या, z = 15x + 30y का अधिकतमीकरण निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत कीजिए :

 $3x + y \le 12$ ,  $x + 2y \le 10$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

के कितने सुसंगत हल हैं ?

(a) 1

(b) 5

(c) 3

(d) असंख्य

65/3/2



- **9.** If the point P(a, b, 0) lies on the line  $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ , then (a, b) is :
  - (a) (1, 2)

(b)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$ 

(c)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ 

- (d) (0, 0)
- 10. For any two events A and B, if  $P(\overline{A}) = \frac{1}{2}$ ,  $P(\overline{B}) = \frac{2}{3}$  and  $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ , then  $P(\overline{\overline{B}})$  equals:
  - (a)  $\frac{3}{8}$

(b)  $\frac{8}{9}$ 

(c)  $\frac{1}{8}$ 

- (d)  $\frac{1}{4}$
- 11. The value of k for which function  $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \ge 0 \\ kx, & x < 0 \end{cases}$  is differentiable at
  - x = 0 is:
  - (a) 1

- (b) 2
- (c) any real number
- (d) 0
- 12. If  $y = \frac{\cos x \sin x}{\cos x + \sin x}$ , then  $\frac{dy}{dx}$  is:
  - $(a) \qquad -\sec^2\!\left(\frac{\pi}{4}\!-\!x\right)$
- (b)  $\sec^2\left(\frac{\pi}{4} \mathbf{x}\right)$
- (c)  $\log \left| \sec \left( \frac{\pi}{4} x \right) \right|$
- (d)  $-\log \left| \sec \left( \frac{\pi}{4} x \right) \right|$
- 13. The number of feasible solutions of the linear programming problem given as

Maximize z = 15x + 30y subject to constraints :

 $3x + y \le 12$ ,  $x + 2y \le 10$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$  is

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) infinite


65/3/2



Page 7



14. एक रैखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत क्षेत्र नीचे आरेख में दर्शाया गया है :



निम्न में से कौन-से व्यवरोध सम्भव हैं ?

(a) 
$$x + 2y \ge 4$$
,  $x + y \le 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

(b) 
$$x + 2y \le 4$$
,  $x + y \le 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

(c) 
$$x + 2y \ge 4$$
,  $x + y \ge 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

$$(d) \qquad x+2y \geq 4, \ x+y \geq 3, \ x \leq 0, \ y \leq 0$$

15. यदि 
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
 तथा  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  है, तो  $B'A'$  बराबर है :

(a) 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(b) \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(c) \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$


$$(d) \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

65/3/2





The feasible region of a linear programming problem is shown in the **14.** figure below:



Which of the following are the possible constraints?

(a) 
$$x + 2y \ge 4$$
,  $x + y \le 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

(b) 
$$x + 2y \le 4$$
,  $x + y \le 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

(c) 
$$x + 2y \ge 4$$
,  $x + y \ge 3$ ,  $x \ge 0$ ,  $y \ge 0$ 

$$(d) \qquad x+2y \geq 4, \ x+y \geq 3, \ x \leq 0, \ y \leq 0$$

If  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  and  $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , then B'A' is equal to: **15.** 

(a) 
$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{cc} \text{(b)} & \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{array}$$

$$(c) \qquad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$(d) \qquad \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

65/3/2





**16.** 
$$\overline{\text{ulc }} A \cdot (\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \vec{\mathsf{R}}, \ \vec{\mathsf{nl}} \ |A| + |\operatorname{adj } A| \ \vec{\mathsf{mn}} \ \mathsf{HI} = \vec{\mathsf{m}} \vec{\mathsf{R}} \vec{\mathsf{R}} :$$

(a) 12

(b) 9

(c) 3

(d) 27

17. A तथा B दोनों समान कोटि के विषम-सममित आव्यूह हैं । AB सममित होगा, यदि :

(a) AB = O

(b) AB = -BA

(c) AB = BA

(d) BA = O

18.  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$  के किस मान के लिए  $A + A' = \sqrt{3}$  I है, जहाँ  $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}$  है ?

(a)  $\frac{\pi}{3}$ 

(b)  $\frac{\pi}{6}$ 

(c) 0

(d)  $\frac{\pi}{2}$ 

प्रश्न संख्या **19** और **20** अभिकथन एवं तर्क आधारित प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन (A) तथा दूसरे को तर्क (R) द्वारा अंकित किया गया है। इन प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए कोडों (a), (b), (c) और (d) में से चुनकर दीजिए।

- (a) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं और तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या करता है।
- (b) अभिकथन (A) और तर्क (R) दोनों सही हैं, परन्तु तर्क (R), अभिकथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है।
- (c) अभिकथन (A) सही है तथा तर्क (R) ग़लत है।
- (d) अभिकथन (A) ग़लत है तथा तर्क (R) सही है।

19. अभिकथन (A): बिन्दुओं (4, 7, 8) तथा (2, 3, 4) से होकर जाने वाली रेखा, बिन्दुओं (-1, -2, 1) तथा (1, 2, 5) से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है ।

तर्क (R) : रेखाएँ  $\overset{\rightarrow}{\mathbf{r}}=\overset{\rightarrow}{a_1}+\lambda\overset{\rightarrow}{b_1}$  तथा  $\overset{\rightarrow}{\mathbf{r}}=\overset{\rightarrow}{a_2}+\mu\overset{\rightarrow}{b_2}$  परस्पर समांतर हैं यदि  $\overset{\rightarrow}{b_1}$  .  $\overset{\rightarrow}{b_2}=0$  है ।

65/3/2 **~~~** 





16. If A · (adj A) = 
$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
, then the value of |A| + |adj A| is equal to:

(a) 12

(b) 9

(c) 3

- (d) 27
- 17. A and B are skew-symmetric matrices of same order. AB is symmetric, if:
  - (a) AB = O

(b) AB = -BA

(c) AB = BA

- (d) BA = O
- **18.** For what value of  $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , is  $A + A' = \sqrt{3} I$ , where

$$A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix} ?$$

(a)  $\frac{\pi}{3}$ 

(b)  $\frac{\pi}{6}$ 

(c) 0

(d)  $\frac{\pi}{2}$ 

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is *not* the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is true.
- **19.** Assertion (A): A line through the points (4, 7, 8) and (2, 3, 4) is parallel to a line through the points (-1, -2, 1) and (1, 2, 5).

Reason (R): Lines  $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{a_1} + \lambda \overrightarrow{b_1}$  and  $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{a_2} + \mu \overrightarrow{b_2}$  are parallel if  $\overrightarrow{b_1}$ ,  $\overrightarrow{b_2} = 0$ .

65/3/2

~~~

Page 11



**20.** अभिकथन (A) :  $[\sin^{-1} x + 2\cos^{-1} x]$  का परिसर  $[0, \pi]$  है ।  $\pi \hat{h}(R)$  :  $\sin^{-1} x$  की मुख्य मान शाखा का परिसर  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$  है ।

### खण्ड ख

इस खण्ड में अति लघु-उत्तरीय (VSA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 2 अंक हैं।

- **21.** निम्न कथन पर विचार कीजिए : " $b \in \mathbb{R}$  का कम-से-कम एक मान ऐसा अवश्य है जिसके लिए  $f(x) = \frac{b}{x}$ ,  $b \neq 0$ ,  $\mathbb{R} \{0\}$  में निरंतर वर्धमान है ।" बताइए कि यह कथन सत्य है या नहीं । औचित्य दीजिए ।
- **22.** (क)  $3\sin^{-1}\!\!\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) + 2\cos^{-1}\!\!\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \cos^{-1}\left(0\right)$  का मान ज्ञात कीजिए ।

#### अथवा

- (ख)  $f(x)=\sin^{-1}x,\ x\in\left[-\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right]$  का आलेख खींचिए । इस फलन f(x) का परिसर भी लिखिए ।
- 23. (क) यदि  $y = x^{\frac{1}{x}}$  है, तो x = 1 पर  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।

#### अथवा

- (ख) यदि  $x = a \sin 2t$ ,  $y = a(\cos 2t + \log \tan t)$  है, तो  $\frac{dy}{dx}$  ज्ञात कीजिए।
- 24. यदि  $\overrightarrow{r}=3\hat{i}-2\hat{j}+6\hat{k}$  है, तो  $(\overrightarrow{r}\times \hat{j}).(\overrightarrow{r}\times \hat{k})-12$  का मान ज्ञात कीजिए ।
- **25.** p का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रेखाएँ  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-4}{3p} = \frac{z-3}{4}$  तथा  $\frac{x-2}{4p} = \frac{y-5}{2} = \frac{1-z}{7}$  परस्पर लंबवत हैं।

65/3/2





**20.** Assertion (A): Range of  $[\sin^{-1} x + 2 \cos^{-1} x]$  is  $[0, \pi]$ .

*Reason (R)*: Principal value branch of  $\sin^{-1} x$  has range  $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ .

## **SECTION B**

This section comprises very short answer (VSA) type questions of 2 marks each.

21. Consider the statement "There exists at least one value of  $b \in \mathbb{R}$  for which  $f(x) = \frac{b}{x}$ ,  $b \neq 0$  is strictly increasing in  $\mathbb{R} - \{0\}$ ."

State True or False. Justify.

**22.** (a) Evaluate:  $3 \sin^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 2 \cos^{-1} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \cos^{-1} (0)$ 

OR

- (b) Draw the graph of  $f(x) = \sin^{-1} x$ ,  $x \in \left[ -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$ . Also, write range of f(x).
- **23.** (a) If  $y = x^{\frac{1}{x}}$ , then find  $\frac{dy}{dx}$  at x = 1.

OR

- (b) If  $x = a \sin 2t$ ,  $y = a(\cos 2t + \log \tan t)$ , then find  $\frac{dy}{dx}$ .
- **24.** If  $\overrightarrow{r} = 3\overrightarrow{i} 2\overrightarrow{j} + 6\overrightarrow{k}$ , find the value of  $(\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{j}) \cdot (\overrightarrow{r} \times \overrightarrow{k}) 12$ .
- **25.** Find the value of p, so that lines  $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-4}{3p} = \frac{z-3}{4}$  and  $\frac{x-2}{4p} = \frac{y-5}{2} = \frac{1-z}{7}$  are perpendicular to each other.

65/3/2

~~~~

Page 13

#### खण्ड ग

इस खण्ड में लघु-उत्तरीय (SA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 3 अंक हैं।

**26.** ज्ञात कीजिए :

$$\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 4e^x - 5}} \, dx$$

27. (क) ज्ञात कीजिए:

$$\int \frac{\cos x}{\sin 3x} dx$$

अथवा

(ख) ज्ञात कीजिए:

$$\int x^2 \log (x^2 + 1) dx$$

28. निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को आलेख द्वारा हल कीजिए :

व्यवरोधों 
$$x+y \ge 10,$$
 
$$x+3y \le 60,$$
 
$$x \le y,$$
 
$$x \ge 0, \ y \ge 0$$

के अंतर्गत z = 3x + 9y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए ।

**29.** (क) पासों के एक युग्म को एक साथ उछाला गया । यदि दोनों पासों पर आई संख्याओं के निरपेक्ष अंतर को X द्वारा निरूपित किया गया है, तो X का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए ।

## अथवा

(ख) दो सिक्कों में से एक अभिनत सिक्का इस प्रकार का है कि  $P(\exists a): P(\forall c) = 1: 3$  है, जबिक दूसरा सिक्का न्याय्य (अनिभनत) सिक्का है । एक सिक्का यादृच्छया चुना जाता है तथा उछाला जाता है । यदि इस सिक्के पर चित आया, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह अभिनत सिक्का है ।

65/3/2 **~~~** 



### **SECTION C**

This section comprises short answer (SA) type questions of 3 marks each.

**26.** Find:

$$\int\!\frac{e^x}{\sqrt{e^{2x}-4e^x-5}}\,dx$$

**27.** (a) Find:

$$\int \frac{\cos x}{\sin 3x} dx$$

OR

(b) Find:

$$\int x^2 \log (x^2 + 1) dx$$

**28.** Solve the following linear programming problem graphically:

Maximize z = 3x + 9y

subject to the constraints

$$x + y \ge 10$$
,

$$x + 3y \le 60,$$

$$x \leq y$$
,

$$x \ge 0, y \ge 0.$$

**29.** (a) A pair of dice is thrown simultaneously. If X denotes the absolute difference of numbers obtained on the pair of dice, then find the probability distribution of X.

OR

(b) There are two coins. One of them is a biased coin such that P (head): P (tail) is 1:3 and the other coin is a fair coin. A coin is selected at random and tossed once. If the coin showed head, then find the probability that it is a biased coin.

65/3/2

Page 15





**30.** (क) अवकल समीकरण  $\frac{d}{dx}(xy^2) = 2y(1+x^2)$  का व्यापक हल ज्ञात कीजिए।

#### अथवा

- (ख) अवकल समीकरण  $xe^{\frac{y}{x}} y + x\frac{dy}{dx} = 0$  को हल कीजिए।
- 31. मान ज्ञात कीजिए:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$$

#### खण्ड घ

इस खण्ड में दीर्घ-उत्तरीय (LA) प्रकार के प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 5 अंक हैं।

**32.** (क) यदि 
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
 है, तो दर्शाइए कि  $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = O$ .

#### अथवा

- (ख) यदि  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$  है, तो  $A^{-1}$  ज्ञात कीजिए तथा इसके प्रयोग से समीकरण निकाय 3x + 5y = 11, 2x 7y = -3 को हल कीजिए ।
- 33. (क) b का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे रेखाएँ  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-b}{3} = \frac{z-3}{4}$  तथा  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z \ \text{परस्पर प्रतिच्छेदी रेखाएँ हों । इन दी गई रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिन्द भी ज्ञात कीजिए ।$

#### अथवा

- (ख) एक समांतर चतुर्भुज ABCD जिसके शीर्ष A(4, 7, 8), B(2, 3, 4), C(-1, -2, 1) तथा D(1, 2, 5) हैं, की सभी भुजाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए । अत: बिन्दु A से CD पर डाले गए लंब के पाद के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए ।
- **34.** सिद्ध कीजिए कि फलन  $f:[0,\infty)\to [-5,\infty)$  जो कि  $f(x)=4x^2+4x-5$  द्वारा परिभाषित है, एकैकी तथा आच्छादक दोनों है ।

65/3/2



**30.** (a) Find the general solution of the differential equation :

$$\frac{d}{dx}(xy^2) = 2y(1+x^2)$$

#### OR.

(b) Solve the following differential equation:

$$xe^{\frac{y}{x}} - y + x\frac{dy}{dx} = 0$$

**31.** Evaluate:

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$$

#### **SECTION D**

This section comprises long answer (LA) type questions of 5 marks each.

32. (a) If 
$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$
, then show that  $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = O$ .

- (b) If  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$ , then find  $A^{-1}$  and use it to solve the following system of equations :  $3x + 5y = 11, \ 2x 7y = -3.$
- 33. (a) Find the value of b so that the lines  $\frac{x-1}{2} = \frac{y-b}{3} = \frac{z-3}{4}$  and  $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$  are intersecting lines. Also, find the point of intersection of these given lines.

### OR

- (b) Find the equations of all the sides of the parallelogram ABCD whose vertices are A(4, 7, 8), B(2, 3, 4), C(-1, -2, 1) and D(1, 2, 5). Also, find the coordinates of the foot of the perpendicular from A to CD.
- **34.** Prove that a function  $f:[0,\infty)\to [-5,\infty)$  defined as  $f(x)=4x^2+4x-5$  is both one-one and onto.

65/3/2

Page 17



35. दिया है कि रेखा  $y = mx \ (m > 0)$ , वक्र  $x^2 + y^2 = 4$  तथा x-अक्ष द्वारा घिरे प्रथम चतुर्थांश में क्षेत्र का क्षेत्रफल  $\frac{\pi}{2}$  इकाई है । समाकलन के प्रयोग से, m का मान ज्ञात कीजिए ।

#### खण्ड ङ

इस खण्ड में 3 प्रकरण अध्ययन आधारित प्रश्न हैं, जिनमें प्रत्येक के 4 अंक हैं।

#### प्रकरण अध्ययन - 1

36. बारिश के पानी को एकत्र करने के लिए एक गड्ढा (टैंक) खोदना है। यह टैंक वर्गाकार आधार का होना चाहिए तथा इसका आयतन  $250~\mathrm{m}^3$  चाहिए। भूमि का मूल्य ₹  $5,000~\mathrm{y}$ ित वर्ग मीटर है तथा इसे खोदने का खर्च इसकी गहराई के अनुसार बढ़ता जाता है तथा पूरे टैंक के लिए यह खर्च ₹  $40,000~\mathrm{h}^2$  है, जहाँ  $\mathrm{h}$  टैंक की मीटरों में गहराई है। टैंक के वर्गाकार आधार की भूजा  $\mathrm{x}$  मीटर है।

एक विशिष्ट वर्षा जल संग्रहण व्यवस्था के तत्त्व



उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

(i) टैंक को खोदने का कुल खर्च (C), x के पदों में ज्ञात कीजिए।

 $rac{\mathrm{dC}}{\mathrm{dx}}$  ज्ञात कीजिए ।

(iii) (क) x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए खर्च C न्यूनतम हो। 2

अथवा

(iii) (ख) जाँच कीजिए कि खर्च फलन C(x), जो कि x के पदों में व्यक्त है, वर्धमान है या नहीं, जहाँ x>0 है ।

65/3/2 **~~~** Page 18



1

(ii)



35. The area of the region bounded by the line y = mx (m > 0), the curve  $x^2 + y^2 = 4$  and the x-axis in the first quadrant is  $\frac{\pi}{2}$  units. Using integration, find the value of m.


## **SECTION E**

This section comprises 3 case study based questions of 4 marks each.

# Case Study - 1

**36.** In order to set up a rain water harvesting system, a tank to collect rain water is to be dug. The tank should have a square base and a capacity of  $250 \text{ m}^3$ . The cost of land is  $\geq 5,000 \text{ per square metre}$  and cost of digging increases with depth and for the whole tank, it is  $\leq 40,000 \text{ h}^2$ , where h is the depth of the tank in metres. x is the side of the square base of the tank in metres.

## ELEMENTS OF A TYPICAL RAIN WATER HARVESTING SYSTEM



Based on the above information, answer the following questions:

- (i) Find the total cost C of digging the tank in terms of x. 1
- (ii) Find  $\frac{dC}{dx}$ .
- (iii) (a) Find the value of x for which cost C is minimum.

OR

(iii) (b) Check whether the cost function C(x) expressed in terms of x is increasing or not, where x > 0.

65/3/2 ~~~ Page 19 *P.T.O.* 




2



### प्रकरण अध्ययन - 2

अष्टभुजाकार प्रिज़्म, एक तीन विमाओं वाली बहुफलक है, जो कि दो अष्टभुजाकार आधारों **37.** तथा आठ आयताकार फलकों से घिरा है । इसमें 24 किनारे तथा 16 शीर्ष हैं ।



इस प्रिज़्म को आयताकार फलकों की दिशा में लुढ़काया गया तथा नीचे वाले फलक (जो भूमि को स्पर्श करता है) पर लिखी संख्या नोट की गई । माना नीचे आने वाले फलकों की संख्या को X से निरूपित किया गया और निम्न सारणी X का प्रायिकता बंटन दर्शाती है ।

X:	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X):	p	2p	2p	p	2p	$p^2$	$2p^2$	$7p^2 + p$

उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

p का मान ज्ञात कीजिए। (i)

1

P(X > 6) ज्ञात कीजिए। (ii)

1

P(X = 3m) ज्ञात कीजिए जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। (iii)

2

अथवा

माध्य E(X) ज्ञात कीजिए । (iii) (碅)

2


65/3/2





# Case Study - 2

**37.** An octagonal prism is a three-dimensional polyhedron bounded by two octagonal bases and eight rectangular side faces. It has 24 edges and 16 vertices.



The prism is rolled along the rectangular faces and number on the bottom face (touching the ground) is noted. Let X denote the number obtained on the bottom face and the following table give the probability distribution of X.

X:	1	2	3	4	5	6	7	8
P(X):	p	2p	2p	p	2p	$p^2$	$2p^2$	$7p^2 + p$

Based on the above information, answer the following questions:

(i) Find the value of p.

1

(ii) Find P(X > 6).

1

(iii) (a) Find P(X = 3m), where m is a natural number.

2

OR

(iii) (b) Find the mean E(X).

2

65/3/2

~~~


Page 21





## प्रकरण अध्ययन - 3

38. एक वॉलीबॉल का खिलाड़ी बॉल से सर्विस करता है, तो यह बॉल एक परवलय का पथ लेती है, जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदत्त है :  $h(t) = -\frac{7}{2} t^2 + \frac{13}{2} t + 1$ , जहाँ h(t) बॉल की किसी समय t (सेकंड में) पर ऊँचाई है,  $(t \ge 0)$ .



उपर्युक्त सूचना के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए :

- (i) क्या h(t) एक संतत फलन है ? औचित्य दीजिए ।
- (ii) वह समय ज्ञात कीजिए जब बॉल की ऊँचाई अधिकतम हो। 2

65/3/2




2



# Case Study - 3

A volleyball player serves the ball which takes a parabolic path given by **38.** the equation  $h(t) = -\frac{7}{2}t^2 + \frac{13}{2}t + 1$ , where h(t) is the height of ball at any time t (in seconds),  $(t \ge 0)$ .



Based on the above information, answer the following questions:

- (i) 2 Is h(t) a continuous function? Justify.
- (ii) Find the time at which the height of the ball is maximum. 2

65/3/2

# Marking Scheme Strictly Confidential

# (For Internal and Restricted use only) Senior School Certificate Examination, 2023

# **MATHEMATICS PAPER CODE 65/3/2**

# **General Instructions: -**

- You are aware that evaluation is the most important process in the actual and correct assessment of the candidates. A small mistake in evaluation may lead to serious problems which may affect the future of the candidates, education system and teaching profession. To avoid mistakes, it is requested that before starting evaluation, you must read and understand the spot evaluation guidelines carefully.
- "Evaluation policy is a confidential policy as it is related to the confidentiality of the examinations conducted, Evaluation done and several other aspects. Its' leakage to public in any manner could lead to derailment of the examination system and affect the life and future of millions of candidates. Sharing this policy/document to anyone, publishing in any magazine and printing in News Paper/Website etc. may invite action under various rules of the Board and IPC."
- Evaluation is to be done as per instructions provided in the Marking Scheme. It should not be done according to one's own interpretation or any other consideration. Marking Scheme should be strictly adhered to and religiously followed. However, while evaluating, answers which are based on latest information or knowledge and/or are innovative, they may be assessed for their correctness otherwise and due marks be awarded to them.
- The Marking scheme carries only suggested value points for the answers.

  These are Guidelines only and do not constitute the complete answer. The students can have their own expression and if the expression is correct, the due marks should be awarded accordingly.
- The Head-Examiner must go through the first five answer books evaluated by each evaluator on the first day, to ensure that evaluation has been carried out as per the instructions given in the Marking Scheme. If there is any variation, the same should be zero after deliberation and discussion. The remaining answer books meant for evaluation shall be given only after ensuring that there is no significant variation in the marking of individual evaluators.
- Evaluators will mark (√) wherever answer is correct. For wrong answer CROSS 'X" be marked. Evaluators will not put right (✓) while evaluating which gives the impression that answer is correct, and no marks are awarded. This is most common mistake which evaluators are committing.
- If a question has parts, please award marks on the right-hand side for each part. Marks awarded for different parts of the question should then be totaled up and written in the left-hand margin and encircled. This may be followed strictly.
- If a question does not have any parts, marks must be awarded in the left-hand margin and encircled. This may also be followed strictly.
- 9 In Q1-Q20, if a candidate attempts the question more than once (without canceling the previous attempt), marks shall be awarded for the first attempt only and the other answer scored out with a note "Extra Question".
- In Q21-Q38, if a student has attempted an extra question, answer of the question deserving more marks should be retained and the other answer scored out with a note "Extra Question".
- No marks to be deducted for the cumulative effect of an error. It should be penalized only once.
- A full scale of marks \_\_\_\_\_ (example 0 to 80/70/60/50/40/30 marks as given in Question Paper) must be used. Please do not hesitate to award full marks if the answer deserves it.
- Every examiner has to necessarily do evaluation work for full working hours i.e., 8 hours every day and evaluate 20 answer books per day (Details are given in Spot Guidelines). This is in view of the reduced syllabus and number of questions in question paper.



- Ensure that you do not make the following common types of errors committed by the Examiner in the past: -
  - Leaving answer or part thereof unassessed in an answer book.
  - Giving more marks for an answer than assigned to it.
  - Wrong totaling of marks awarded on an answer.
  - Wrong transfer of marks from the inside pages of the answer book to the title page.
  - Wrong question wise totaling on the title page.
  - Wrong totaling of marks of the two columns on the title page.
  - Wrong grand total.
  - Marks in words and figures not tallying/not same.
  - Wrong transfer of marks from the answer book to online award list.
  - Answers marked as correct, but marks not awarded. (Ensure that the right tick mark is correctly and clearly indicated. It should merely be a line. Same is with the X for incorrect answer.)
  - Half or a part of answer marked correct and the rest as wrong, but no marks awarded.
- While evaluating the answer books if the answer is found to be totally incorrect, it should be marked as cross (X) and awarded zero (0) Marks.
- Any unassessed portion, non-carrying over of marks to the title page, or totaling error detected by the candidate shall damage the prestige of all the personnel engaged in the evaluation work as also of the Board. Hence, to uphold the prestige of all concerned, it is again reiterated that the instructions be followed meticulously and judiciously.
- The Examiners should acquaint themselves with the guidelines given in the "Guidelines for spot Evaluation" before starting the actual evaluation.
- 18 Every Examiner shall also ensure that all the answers are evaluated, marks carried over to the title page, correctly totaled and written in figures and words.
- The candidates are entitled to obtain photocopy of the Answer Book on request on payment of the prescribed processing fee. All Examiners/Additional Head Examiners/Head Examiners are once again reminded that they must ensure that evaluation is carried out strictly as per value points for each answer as given in the Marking Scheme.



|        | SECTION A                                                                                                        |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Q. No. | Expected Answers/Value Points                                                                                    | Marks |
| Q1     | $\int 2^{x+2} dx$ is equal to :                                                                                  |       |
|        | (a) $2^{x+2} + C$ (b) $2^{x+2} \log 2 + C$                                                                       |       |
|        | (a) $2^{x+2} + C$ (b) $2^{x+2} \log 2 + C$ (c) $\frac{2^{x+2}}{\log 2} + C$ (d) $2 \cdot \frac{2^x}{\log 2} + C$ |       |
| Ans    | (c) $\frac{2^{x+2}}{\log 2} + C$                                                                                 | 1     |
| Q2     | Let A be a skew-symmetric matrix of order 3. If $ A  = x$ , then $(2023)^{3}$                                    | is is |
|        | equal to:                                                                                                        |       |
|        | (a) $2023$ (b) $\frac{1}{2023}$                                                                                  |       |
|        | (c) $(2023)^2$ (d) 1                                                                                             |       |
| Ans    | (d) 1                                                                                                            | 1     |
| Q3     | $\int_{0}^{2} \sqrt{4-x^{2}} dx \text{ equals}:$                                                                 |       |
|        | (a) $2 \log 2$ (b) $-2 \log 2$                                                                                   |       |
|        | (c) $\frac{\pi}{2}$ (d) $\pi$                                                                                    |       |
| Ans    | (d) $\pi$                                                                                                        | 1     |
| Q4     | The solution of the differential equation $\frac{dx}{x} + \frac{dy}{y} = 0$ is :                                 |       |
|        | (a) $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = C$ (b) $\log x - \log y = C$                                                    |       |
|        | (c) $xy = C$ (d) $x + y = C$                                                                                     |       |
| Ans    | (c) $xy = C$                                                                                                     | 1     |
| Q5     | What is the product of the order and degree of the differential equation                                         | on    |
|        | $\frac{d^2y}{dx^2}\sin y + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3\cos y = \sqrt{y} ?$                                      |       |
|        | (a) 3 (b) 2 (c) 6 (d) not defined                                                                                |       |
| Ans    | (b) 2                                                                                                            | 1     |



| Q6  | The direction cosines of vector BA, where coordinates of A and B are                                                                                      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (1, 2, -1) and $(3, 4, 0)$ respectively, are:                                                                                                             |
|     | (a) $-2, -2, -1$ (b) $-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}$                                                                                           |
|     | (c) $2, 2, 1$ (d) $\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3}$                                                                                                 |
| Ans | (b) $-\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}$                                                                                                            |
| Q7  | $\overrightarrow{a}$ and $\overrightarrow{b}$ are two non-zero vectors such that the projection of $\overrightarrow{a}$ on $\overrightarrow{b}$           |
|     | is 0. The angle between $\overrightarrow{a}$ and $\overrightarrow{b}$ is:                                                                                 |
|     | (a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\pi$                                                                                                                             |
|     | (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) 0                                                                                                                                 |
| Ans | (c) $\frac{\pi}{4}$ (d) 0 (a) $\frac{\pi}{2}$                                                                                                             |
| Q8  | In $\triangle$ ABC, $\overrightarrow{AB} = \hat{i} + \hat{j} + 2\hat{k}$ and $\overrightarrow{AC} = 3\hat{i} - \hat{j} + 4\hat{k}$ . If D is mid-point of |
|     | BC, then vector $\overrightarrow{AD}$ is equal to :                                                                                                       |
|     | (a) $4\hat{i} + 6\hat{k}$ (b) $2\hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$                                                                                            |
|     | (c) $\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$ (d) $2\hat{i} + 3\hat{k}$                                                                                               |
| Ans | (d) $2\hat{i} + 3\hat{k}$                                                                                                                                 |
| Q9  | If the point P(a, b, 0) lies on the line $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z+3}{4}$ , then (a, b) is:                                                |
|     | (a) $(1, 2)$ (b) $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right)$                                                                                                  |
|     | (c) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$ (d) $(0, 0)$                                                                                                  |
| Ans | (c) $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}\right)$                                                                                                               |
| Q10 | For any two events A and B, if $P(\overline{A}) = \frac{1}{2}$ , $P(\overline{B}) = \frac{2}{3}$ and $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$ ,                        |
|     | then $P\left(\frac{\overline{A}}{\overline{B}}\right)$ equals :                                                                                           |
|     | (a) $\frac{3}{8}$ (b) $\frac{8}{9}$ (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{4}$                                                                                   |
|     | (c) $\frac{1}{8}$ (d) $\frac{1}{4}$                                                                                                                       |



| Ans | One mark should be awarded to everyone who has attempted this question.                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Q11 | The value of k for which function $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \ge 0 \\ kx, & x < 0 \end{cases}$ is differential                                                                                                                                                                                        | ole at |
|     | x = 0 is:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|     | (a) 1 (b) 2                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|     | (c) any real number (d) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| Ans | (d) 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      |
| Q12 | If $y = \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x}$ , then $\frac{dy}{dx}$ is:                                                                                                                                                                                                                               |        |
|     | (a) $-\sec^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$ (b) $\sec^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$                                                                                                                                                                                                                    |        |
|     | (c) $\log \left  \sec \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right $ (d) $-\log \left  \sec \left( \frac{\pi}{4} - x \right) \right $                                                                                                                                                                          |        |
| Ans | (a) $-\sec^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)$                                                                                                                                                                                                                                                               | 1      |
| Q13 | The number of feasible solutions of the linear programming proble given as $ \begin{aligned} &\text{Maximize } z = 15x + 30y \text{ subject to constraints :} \\ &3x + y \leq 12, \ x + 2y \leq 10, \ x \geq 0, y \geq 0 \text{ is} \\ &(a)  1 & (b)  2 \\ &(c)  3 & (d)  \text{infinite} \end{aligned} $ | em     |
| Ans | (d) infinite                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1      |
| Q14 | The feasible region of a linear programming problem is shown in the figure below: $x' = x' + $                                                                                                                                                                              |        |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |



| Q15 | If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ , then B'A' is equal to:                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (a) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (c) $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (d) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ |
| Ans | (b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                          |
| Q16 | If A · (adj A) = $\begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ , then the value of  A  +  adj A  is equal to:                                                                         |
|     | (a) 12 (b) 9<br>(c) 3 (d) 27                                                                                                                                                                                |
| Ans | (a) 12                                                                                                                                                                                                      |
| Q17 | A and B are skew-symmetric matrices of same order. AB is symmetric, if:                                                                                                                                     |
|     | (a) $AB = O$ (b) $AB = -BA$                                                                                                                                                                                 |
|     | (c) $AB = BA$ (d) $BA = O$                                                                                                                                                                                  |
| Ans | (c) $AB = BA$                                                                                                                                                                                               |
| Q18 | For what value of $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ , is $A + A' = \sqrt{3} I$ , where                                                                                                                  |
|     | $A = \begin{bmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{bmatrix}?$                                                                                                                                    |
|     | (a) $\frac{\pi}{3}$ (b) $\frac{\pi}{6}$                                                                                                                                                                     |
|     | (c) 0 (d) $\frac{\pi}{2}$                                                                                                                                                                                   |
| Ans | (b) $\frac{\pi}{6}$                                                                                                                                                                                         |
| 0   | 1 10 100 4 11 1 1 1 1                                                                                                                                                                                       |

Questions number 19 and 20 are Assertion and Reason based questions carrying 1 mark each. Two statements are given, one labelled Assertion (A) and the other labelled Reason (R). Select the correct answer from the codes (a), (b), (c) and (d) as given below.

- (a) Both Assertion (A) and Reason (R) are true and Reason (R) is the correct explanation of the Assertion (A).
- (b) Both Assertion (A) and Reason (R) are true, but Reason (R) is **not** the correct explanation of the Assertion (A).
- (c) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.
- (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is true.



| Q19    | Assertion (A): A line through the points (4, 7, 8) and (2, 3, 4) is para                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | llel              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|        | to a line through the points $(-1, -2, 1)$ and $(1, 2, 5)$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
|        | Reason (R): Lines $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{a_1} + \lambda \overrightarrow{b_1}$ and $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{a_2} + \mu \overrightarrow{b_2}$ are parallely                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | el if             |
|        | $\overrightarrow{b_1} \cdot \overrightarrow{b_2} = 0.$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| Ans    | (c) Assertion (A) is true and Reason (R) is false.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 |
| Q20    | Assertion (A): Range of $[\sin^{-1} x + 2 \cos^{-1} x]$ is $[0, \pi]$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|        | Reason (R): Principal value branch of $\sin^{-1} x$ has range $\left[-\frac{\pi}{2},\right]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $\frac{\pi}{2}$ . |
| Ans    | (d) Assertion (A) is false and Reason (R) is true.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                 |
|        | SECTION B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Q21    | Consider the statement "There exists at least one value of $b \in \mathbb{R}$ for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
|        | which $f(x) = \frac{b}{x}$ , $b \neq 0$ is strictly increasing in $\mathbb{R} - \{0\}$ ."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|        | State True or False. Justify.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Ans    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        | The given statement is "True".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                 |
|        | $f'(x) = -\frac{b}{x^2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/4               |
|        | , and the second | 1/2               |
|        | for $b < 0$ , $f'(x) > 0$ in $(-\infty, 0)$ and $(0, \infty)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/2               |
|        | $\therefore$ f(x) is strictly increasing in both these intervals.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Q22(a) | Evaluate: $3 \sin^{-1} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right) + 2 \cos^{-1} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} \right) + \cos^{-1} (0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Ans    | (a) Given expression = $\frac{3\pi}{4} + \frac{2\pi}{6} + \frac{\pi}{2}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1½                |
|        | $=\frac{19\pi}{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/2               |
|        | OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| Q22(b) | Draw the graph of $f(x) = \sin^{-1} x$ , $x \in \left[ -\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right]$ . Also, write range                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
|        | of f(x).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| Ans    | (b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |



|        | π/2-                                                                                                                                                                                       |                |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | A /                                                                                                                                                                                        |                |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | -i.s -i -0.s 0 0.5 i 1.5                                                                                                                                                                   |                |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | / B                                                                                                                                                                                        |                |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | -п/2-                                                                                                                                                                                      |                |
|        | Correct graph                                                                                                                                                                              | 1              |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | Here, the points A, B, C and D are respectively                                                                                                                                            |                |
|        | $\left(0,\frac{\pi}{4}\right),\left(0,-\frac{\pi}{4}\right),\left(\frac{1}{\sqrt{2}},0\right),\left(-\frac{1}{\sqrt{2}},0\right).$                                                         |                |
|        | Range = $\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right]$                                                                                                                                       | 1              |
|        | $\text{Range} = \left[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right]$                                                                                                                                    | 1              |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
| Q23(a) | $\frac{1}{1}$ then $\frac{1}{1}$ dy                                                                                                                                                        | 1              |
|        | If $y = x^{\frac{1}{x}}$ , then find $\frac{dy}{dx}$ at $x = 1$ .                                                                                                                          |                |
| Ans    | (a) $y = x^{1/x}$                                                                                                                                                                          |                |
|        | $\Rightarrow \log y = \frac{1}{x} \log x$                                                                                                                                                  | 1/2            |
|        | $\Rightarrow \frac{1}{y} \frac{dy}{dx} = -\frac{\log x}{x^2} + \frac{1}{x^2} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = x^{\frac{1}{x}} \frac{(1 - \log x)}{x^2}$ $\Rightarrow (\frac{dy}{dx})_{x=1} = 1$ | 1              |
|        | dy                                                                                                                                                                                         |                |
|        | $\Rightarrow (\frac{dy}{dx})_{x=1} = 1$                                                                                                                                                    | 1/2            |
| O23(b) | OR dv                                                                                                                                                                                      |                |
| Q23(b) | If $x = a \sin 2t$ , $y = a(\cos 2t + \log \tan t)$ , then find $\frac{dy}{dx}$ .                                                                                                          |                |
| Ans    | $(b)\frac{dx}{dt} = 2a\cos 2t$                                                                                                                                                             | 1/2            |
|        | $dy = ($ $sec^2 t) cos^2 2t$                                                                                                                                                               |                |
|        | $\frac{dy}{dt} = 2a\left(-\sin 2t + \frac{\sec^2 t}{2\tan t}\right) = 2a\frac{\cos^2 2t}{\sin 2t}$                                                                                         | 1              |
|        | $\frac{dy}{dx} = \cot 2t$                                                                                                                                                                  | 1/2            |
| Q24    | If $\overrightarrow{r} = 3\hat{i} - 2\hat{j} + 6\hat{k}$ , find the value of $(\overrightarrow{r} \times \hat{j}) \cdot (\overrightarrow{r} \times \hat{k}) - 12$ .                        |                |
| Ans    |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | $(\overrightarrow{r} \times \mathring{j}) \cdot (\overrightarrow{r} \times \mathring{k}) - 12 = (3\mathring{k} - 6\mathring{i}) \cdot (-3\mathring{j} - 2\mathring{i}) - 12$               | $1\frac{1}{2}$ |
|        |                                                                                                                                                                                            |                |
|        | =12-12=0                                                                                                                                                                                   | 1/2            |



| Q25    | Find the value of p, so that lines $\frac{x-1}{-2} = \frac{y-4}{3p} = \frac{z-3}{4}$ and |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | $\frac{x-2}{4p} = \frac{y-5}{2} = \frac{1-z}{7}$ are perpendicular to each other.        |     |
| Ans    | 4p 2 1                                                                                   |     |
|        | d.r.'s of lines are < - 2, 3p, 4 > and < 4p, 2, - 7 >                                    | 1   |
|        | As lines are perpendicular                                                               |     |
|        | -8p + 6p - 28 = 0                                                                        | 1/2 |
|        | $\Rightarrow$ p = -14                                                                    | 1/2 |
|        | SECTION C                                                                                |     |
| Q26    | Find:                                                                                    |     |
|        | $\int \frac{e^x}{\sqrt{e^{2x} - 4e^x - 5}}  dx$                                          |     |
| Ans    | v v m                                                                                    | 1/- |
|        | Let $e^X = t$ . Then $e^X dx = dt$                                                       | 1/2 |
|        | Given integral becomes                                                                   |     |
|        | $\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 4t - 5}}$                                                    |     |
|        | $\int \frac{dt}{\sqrt{t^2 - 4t - 5}}$ $= \int \frac{dt}{\sqrt{(t - 2)^2 - 3^2}}$         | 1   |
|        | $= \log  (t-2) + \sqrt{t^2 - 4t - 5}  + C$                                               | 1   |
|        | $= \log  e^{X} - 2 + \sqrt{e^{2x} - 4e^{x} - 5}  + C$                                    | 1/2 |
|        |                                                                                          |     |
| Q27(a) | Find:                                                                                    |     |
|        | $\int \frac{\cos x}{\sin 3x} dx$                                                         |     |
| Ans    | $(a)I = \int \frac{\cos x}{3\sin x - 4\sin^3 x} dx$                                      |     |
|        | Let $\sin x = t \Rightarrow \cos x  dx = dt$                                             | 1/2 |
|        | $I = \int \frac{dt}{3t - 4t^3}$                                                          | 1/2 |
|        | $=\int \frac{1}{t^3\left(\frac{3}{t^2}-4\right)} dt$                                     | 1/2 |
|        | Let $\frac{3}{t^2} - 4 = z \implies -\frac{6}{t^3} dt = dz$                              | 1/2 |
|        | $I = -\frac{1}{6} \int \frac{dz}{z}$                                                     |     |



|        | $=-\frac{1}{6}\log  z +C$                                                                                     | 1/2 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | $=-\frac{1}{6}\log  3 \csc^2 x - 4  + C$                                                                      | 1/2 |
|        | OR                                                                                                            |     |
| Q27(b) | Find:                                                                                                         |     |
|        | $\int x^2 \log(x^2 + 1) dx$                                                                                   |     |
| Ans    |                                                                                                               |     |
|        | (b)Let $I = \int x^2 \log(x^2 + 1) dx$                                                                        |     |
|        | $= \log (x^2 + 1) \cdot \frac{x^3}{3} - \int \frac{2x}{x^2 + 1} \cdot \frac{x^3}{3} dx$                       | 1   |
|        | $= \frac{x^3}{3} \log(x^2 + 1) - \frac{2}{3} \int \frac{x^4}{x^2 + 1} dx$                                     | 1/2 |
|        | $= \frac{x^3}{3} \log(x^2 + 1) - \frac{2}{3} \int \left(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2 + 1}\right) dx$                | 1/2 |
|        | $= \frac{x^3}{3} \log (x^2 + 1) - \frac{2}{3} \left[ \frac{x^3}{3} - x + \tan^{-1} x \right] + C$             | 1   |
| Q28    | Solve the following linear programming problem graphically:                                                   |     |
|        | Maximize $z = 3x + 9y$                                                                                        |     |
|        | subject to the constraints                                                                                    |     |
|        | $x + y \ge 10$                                                                                                |     |
|        | $x + 3y \le 60$                                                                                               |     |
|        | $x + 3y \le 60$<br>$x \le y$                                                                                  |     |
|        | $x \le y$<br>$x \ge 0, y \ge 0$                                                                               |     |
| Ans    | x ≥ 0, y ≥ 0                                                                                                  |     |
|        | Correct graph $A = (0, 20) \qquad y = x$ $D = (15, 15)$ $x + 3y = 60$ $B = (0, 10)$ $C = (5, 5)$ $x + y = 10$ | 2   |

|        | Corner points                                                                                                                                                        |                                  | Value of $Z = 3x + 9y$ |                      |                      |                |                     |                |       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|-------|
|        | A(0, 20)                                                                                                                                                             |                                  | 180 → Maximum          |                      |                      |                |                     |                |       |
|        | B(0, 10)                                                                                                                                                             |                                  |                        |                      |                      |                | 90                  |                |       |
|        | C(5, 5)                                                                                                                                                              |                                  |                        |                      |                      |                | 60                  |                |       |
|        | D(15, 15)                                                                                                                                                            |                                  |                        |                      |                      |                | $180 \rightarrow 1$ | Maximum        |       |
|        | Maximum lies                                                                                                                                                         | at every                         | point o                | n the li             | ne segn              | nent AD        | ).                  |                | 1     |
| Q29(a) | difference                                                                                                                                                           | dice is the of numbery distribut | ers obta               | ained on             | _                    |                |                     |                |       |
| Ans    | (2)                                                                                                                                                                  |                                  |                        |                      |                      |                |                     |                |       |
|        | (a)                                                                                                                                                                  | X                                | 0                      | 1                    | 2                    | 3              | 4                   | 5              | 1 1/2 |
|        |                                                                                                                                                                      | P(X)                             | 6<br>36                | 10<br>36             | 8 36                 | $\frac{6}{36}$ | 4 36                | <u>2</u><br>36 | 1 1/2 |
|        |                                                                                                                                                                      |                                  | 30                     | 30                   | 30                   | 36             | 36                  | 30             |       |
|        |                                                                                                                                                                      |                                  |                        | 0                    | R                    |                |                     |                |       |
| Q29(b) | There are tw<br>P (head): P (t<br>selected at ra<br>find the proba                                                                                                   | tail) is 1 :<br>ndom and         | 3 and tossed           | the other            | r coin is<br>the coi | a fair c       | oin. A c            | oin is         |       |
| Ans    | $(b)E_1 = Biased$                                                                                                                                                    | coin is se                       | elected                | $\Rightarrow P(E_1)$ | $=\frac{1}{2}$       |                |                     |                | 1/2   |
|        | $E_2 = Fair coin i$                                                                                                                                                  | is selected                      | $d \Rightarrow P($     | $(E_2)=\frac{1}{2}$  |                      |                |                     |                |       |
|        | A = Head app                                                                                                                                                         | eared on t                       | ossing                 | a select             | ed coin              |                |                     |                |       |
|        | $P\left(\frac{A}{E_1}\right) = \frac{1}{4}, P\left(\frac{A}{E_2}\right) = \frac{1}{2}$                                                                               |                                  |                        |                      |                      |                |                     |                | 1     |
|        | By Bayes' Theorem $P\left(\frac{E_1}{A}\right) = \frac{P(E_1) P\left(\frac{A}{E_1}\right)}{P(E_1) P\left(\frac{A}{E_1}\right) + P(E_2) P\left(\frac{A}{E_2}\right)}$ |                                  |                        |                      |                      |                |                     |                |       |
|        | $=\frac{\frac{1}{2}\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}}$                                                                            |                                  |                        |                      |                      |                |                     |                | 1     |
|        | $=\frac{1}{3}$                                                                                                                                                       |                                  |                        |                      |                      |                |                     |                | 1/2   |



| Q30(a) | Find the general solution of the differential equation:                                                                                                                                                                                                |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|        | $\frac{d}{dx}(xy^2) = 2y(1+x^2)$                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Ans    |                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
|        | (a) Given differential equation is                                                                                                                                                                                                                     | 1/2 |
|        | $2xy\frac{dy}{dx} + y^2 = 2y(1+x^2)$                                                                                                                                                                                                                   | 72  |
|        | $\Rightarrow \frac{dy}{dx} + \frac{y}{2x} = \frac{1}{x} + X$                                                                                                                                                                                           |     |
|        | Integrating factor = $e^{\int \frac{1}{2x} dx} = e^{\log \sqrt{x}} = \sqrt{x}$                                                                                                                                                                         | 1   |
|        | Solution is given by $y\sqrt{x} = \int \left(\frac{1}{\sqrt{x}} + x^{\frac{3}{2}}\right) dx$                                                                                                                                                           | 1   |
|        | $\Rightarrow y\sqrt{x} = 2\sqrt{x} + \frac{2x^{\frac{5}{2}}}{5} + C \text{ ,or } y = 2 + \frac{2x^2}{5} + \frac{C}{\sqrt{x}}$                                                                                                                          | 1/2 |
|        | OR Solve the following differential equation :                                                                                                                                                                                                         |     |
| Q30(b) | **                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
|        | $xe^{\frac{y}{x}} - y + x\frac{dy}{dx} = 0$                                                                                                                                                                                                            |     |
| Ans    | (b) Given differential equation is $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} - e^{\frac{y}{x}}$                                                                                                                                                                     | 1/2 |
|        | Let $y = vx \implies \frac{dy}{dx} = v + x \frac{dv}{dx}$                                                                                                                                                                                              | 1/2 |
|        | The given equation becomes $v + x \frac{dv}{dx} = v - e^{V}$                                                                                                                                                                                           |     |
|        | $\Rightarrow -e^{-V}dv = \frac{dx}{x}$                                                                                                                                                                                                                 | 1/2 |
|        | Integrating both sides, we get                                                                                                                                                                                                                         |     |
|        | $e^{-V} = \log  x  + C$                                                                                                                                                                                                                                | 1   |
|        | $\Rightarrow e^{-\frac{y}{x}} = \log  x  + C$                                                                                                                                                                                                          | 1/2 |
| Q31    | Evaluate:                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|        | $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$                                                                                                                                                                            |     |
| Ans    | $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$                                                                                                                                                                        |     |
|        | $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx$ $I = 2 \int_{0}^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} dx \qquad \text{as } f(x) = \frac{\sin^{100} x}{\sin^{100} x + \cos^{100} x} \text{ is even}$ | 1/2 |
|        | $I = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\cos^{100} x}{\cos^{100} x + \sin^{100} x} dx \qquad \text{using } \int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a - x) dx$                                                                                                                | 1   |
|        | $2I = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{\sin^{100} x + \cos^{100} x}{\cos^{100} x + \sin^{100} x} dx = 2 \int_0^{\pi/2} dx$                                                                                                                                       | 1   |
|        | $I = x _0^{\pi/2} \qquad \Rightarrow I = \frac{\pi}{2}$                                                                                                                                                                                                | 1/2 |




|        | SECTION D                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |  |  |  |  |  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|--|--|
| Q32(a) | If $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ , then show that $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = 0$                                                                                                                                                                                        |                |  |  |  |  |  |
|        | $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ , then show that $H = 0H + 7H + 2I = 0$                                                                                                                                                                                                   | ı              |  |  |  |  |  |
| Ans    | (a) getting, $A^2 = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 13 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                          | $1\frac{1}{2}$ |  |  |  |  |  |
|        | getting, $A^3 = \begin{bmatrix} 21 & 0 & 34 \\ 12 & 8 & 23 \\ 34 & 0 & 55 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                         | $1\frac{1}{2}$ |  |  |  |  |  |
|        | $\therefore A^3 - 6A^2 + 7A + 2I =$                                                                                                                                                                                                                                                              |                |  |  |  |  |  |
|        | $\begin{bmatrix} 21 & 0 & 34 \\ 12 & 8 & 23 \\ 34 & 0 & 55 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 30 & 0 & 48 \\ 12 & 24 & 30 \\ 48 & 0 & 78 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 & 14 \\ 0 & 14 & 7 \\ 14 & 0 & 21 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ | 1              |  |  |  |  |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              |  |  |  |  |  |
| Q32(b) | If $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 5 & -7 \end{bmatrix}$ , then find $A^{-1}$ and use it to solve the following                                                                                                                                                                                    |                |  |  |  |  |  |
|        | $\begin{bmatrix} 5 & -7 \end{bmatrix}$ system of equations:                                                                                                                                                                                                                                      |                |  |  |  |  |  |
| A      | $3x + 5y = 11, \ 2x - 7y = -3.$                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1              |  |  |  |  |  |
| Ans    | (b)adj $A = \begin{bmatrix} -7 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                                                     | 1              |  |  |  |  |  |
|        | A  = -31                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1              |  |  |  |  |  |
|        | $A^{-1} = \frac{-1}{31} \begin{bmatrix} -7 & -2 \\ -5 & 3 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                                                         | 1/2            |  |  |  |  |  |
|        | Given system of equations is $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 2 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \end{bmatrix}$                                                                                                                                       |                |  |  |  |  |  |
|        | which is A'X = B, where $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ , $B = \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                |                |  |  |  |  |  |
|        | $\Rightarrow X = (A')^{-1}B$                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |  |  |  |  |
|        | $\Rightarrow X = (A^{-1})'B$                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/2            |  |  |  |  |  |
|        | $= \frac{-1}{31} \begin{bmatrix} -7 & -5 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 11 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                  | 1              |  |  |  |  |  |
|        | $\therefore x = 2,  y = 1$                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |  |  |  |  |  |



|        | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                           |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Q33(a) | Find the value of b so that the lines $\frac{x-1}{2} = \frac{y-b}{3} = \frac{z-3}{4}$ and                                                                                                                              |     |
|        | $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$ are intersecting lines. Also, find the point of                                                                                                                                    |     |
|        | intersection of these given lines.                                                                                                                                                                                     |     |
| Ans    | (a) As lines are intersecting, $(\overrightarrow{a_2} - \overrightarrow{a_1}) \cdot ((\overrightarrow{b_1} \times \overrightarrow{b_2})) = 0$                                                                          |     |
|        | $\Rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 1 - b & -3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 0$                                                                                                                               | 1   |
|        | $\Rightarrow$ b = 2                                                                                                                                                                                                    | 1   |
|        | Any point on the line $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ is                                                                                                                                               |     |
|        | $(2\lambda+1, 3\lambda+2, 4\lambda+3), \ \lambda \in \mathbb{R}$                                                                                                                                                       | 1   |
|        | For the point of intersection, these coordinates must satisfy $\frac{x-4}{5} = \frac{y-1}{2} = z$                                                                                                                      |     |
|        | $\Rightarrow \frac{2\lambda + 1 - 4}{5} = \frac{3\lambda + 2 - 1}{2} = 4\lambda + 3$                                                                                                                                   | 1   |
|        | $\Rightarrow \lambda = -1$                                                                                                                                                                                             | 1/2 |
|        | $\therefore$ point of intersection is $(-1, -1, -1)$ <b>OR</b>                                                                                                                                                         | 1/2 |
| Q33(b) | Find the equations of all the sides of the parallelogram ABCD whose vertices are A(4, 7, 8), B(2, 3, 4), C( $-1$ , $-2$ , 1) and D(1, 2, 5). Also, find the coordinates of the foot of the perpendicular from A to CD. |     |
| Ans    | (b) Equation of the line AB: $\frac{x-4}{2} = \frac{y-7}{4} = \frac{z-8}{4}$                                                                                                                                           | 1/2 |
|        | Equation of the line BC: $\frac{x-2}{3} = \frac{y-3}{5} = \frac{z-4}{3}$                                                                                                                                               | 1/2 |
|        | Equation of the line CD: $\frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{2}$                                                                                                                                               | 1/2 |
|        | Equation of the line DA: $\frac{x-4}{3} = \frac{y-7}{5} = \frac{z-8}{3}$                                                                                                                                               | 1/2 |
|        | Let P be foot of perpendicular from A to CD.                                                                                                                                                                           |     |
|        | ∴ Coordinates of P are $(\lambda - 1, 2\lambda - 2, 2\lambda + 1)$ for some $\lambda$                                                                                                                                  | 1   |
|        |                                                                                                                                                                                                                        |     |



|        | d.r.'s of AP are $(\lambda - 5, 2\lambda - 9, 2\lambda - 7)$                                                                                                               | 1/2            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | since AP⊥CD                                                                                                                                                                |                |
|        | $\Rightarrow 1(\lambda - 5) + 2(2\lambda - 9) + 2(2\lambda - 7) = 0$                                                                                                       | 1/2            |
|        | $\Rightarrow 9\lambda = 37 \qquad \Rightarrow \lambda = \frac{37}{9}$                                                                                                      | 1/2            |
|        | $\therefore$ Coordinates of P are $\left(\frac{28}{9}, \frac{56}{9}, \frac{83}{9}\right)$                                                                                  | 1/2            |
| Q34    | Prove that a function $f: [0, \infty) \to [-5, \infty)$ defined as $f(x) = 4x^2 + 4x - 5$ is both one-one and onto.                                                        |                |
| Ans    | Let $x_1, x_2 \in [0, \infty)$ such that $f(x_1) = f(x_2)$                                                                                                                 |                |
|        | Then this $\Rightarrow 4x_1^2 + 4x_1 - 5 = 4x_2^2 + 4x_2 - 5$                                                                                                              |                |
|        | $\Rightarrow$ (x <sub>1</sub> + x <sub>2</sub> ) (x <sub>1</sub> - x <sub>2</sub> ) + (x <sub>1</sub> - x <sub>2</sub> ) = 0                                               |                |
|        | $\Rightarrow (x_1 - x_2)[(x_1 + x_2) + 1] = 0$                                                                                                                             | $2\frac{1}{2}$ |
|        | $\Rightarrow$ (x <sub>1</sub> - x <sub>2</sub> ) = 0 or x <sub>1</sub> + x <sub>2</sub> = -1, which is rejected as x <sub>1</sub> , x <sub>2</sub> $\ge$ 0                 |                |
|        | $\Rightarrow x_1 = x_2$                                                                                                                                                    |                |
|        | ∴ f is one-one.                                                                                                                                                            |                |
|        | Let $f(x) = y \Rightarrow y = 4x^2 + 4x - 5$ for $x \in [0, \infty)$                                                                                                       |                |
|        | $\Rightarrow 4x^2 + 4x - 5 - y = 0$                                                                                                                                        | 1              |
|        | $\Rightarrow 4x^{2} + 4x - 5 - y = 0$ $\Rightarrow x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 16(-5 - y)}}{8} \Rightarrow x = \frac{-4 + 4\sqrt{6 + y}}{8} = \frac{-1 + \sqrt{6 + y}}{2}$ | $2\frac{1}{2}$ |
|        | Since, $x \ge 0$ , we have $y + 6 \ge 1 \Rightarrow y \in [-5, \infty)$                                                                                                    |                |
|        | ∴ Range = Codomain = $[-5, \infty)$<br>Hence f is onto.                                                                                                                    |                |
| Q35    | The area of the region bounded by the line $y = mx (m > 0)$ , the curve                                                                                                    |                |
|        | $x^2 + y^2 = 4$ and the x-axis in the first quadrant is $\frac{\pi}{2}$ units. Using                                                                                       |                |
| Ans    | integration, find the value of m.                                                                                                                                          |                |
| 1 1110 | Correct figure :                                                                                                                                                           | 1              |
|        |                                                                                                                                                                            |                |
|        |                                                                                                                                                                            |                |



$$x^2 + y^2 = 4$$
 and  $y = mx$ 

$$\Rightarrow x^2 + m^2 x^2 = 4 \Rightarrow x = \frac{2}{\sqrt{1 + m^2}}$$

x- coordinate of the required point of intersection is  $\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}$ .

 $\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}$ 

According to question,

$$\int_0^{\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}} mx \ dx + \int_{\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow m \frac{x^2}{2} \Big|_{0}^{\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}} + \frac{x}{2}\sqrt{4-x^2} + 2\sin^{-1}\frac{x}{2}\Big|_{\frac{2}{\sqrt{1+m^2}}}^{2} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{2m}{1+m^2} + \pi - \frac{2m}{1+m^2} - 2\sin^{-1}\frac{1}{\sqrt{1+m^2}} = \frac{\pi}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\pi}{4} = \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}} \Rightarrow m^2 + 1 = 2$$

$$\Rightarrow$$
 m = 1 (as m > 0)

1/2


1



# SECTION E In order to set up a rain water harvesting sy

In order to set up a rain water harvesting system, a tank to collect rain water is to be dug. The tank should have a square base and a capacity of 250 m<sup>3</sup>. The cost of land is  $\stackrel{?}{=}$  5,000 per square metre and cost of digging increases with depth and for the whole tank, it is  $\stackrel{?}{=}$  40,000 h<sup>2</sup>, where h is the depth of the tank in metres. x is the side of the square base of the tank in metres.

ELEMENTS OF A TYPICAL RAIN WATER HARVESTING SYSTEM



Based on the above information, answer the following questions:

- (i) Find the total cost C of digging the tank in terms of x.
- (ii) Find  $\frac{dC}{dx}$

Q36

(iii) (a) Find the value of x for which cost C is minimum.

OR

(iii) (b) Check whether the cost function C(x) expressed in terms of x is increasing or not, where x > 0.


|          | is increasing or not, where $x > 0$ .                       |     |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----|
| Ans(i)   | $(i)C = 40000h^2 + 5000x^2$                                 |     |
|          | as $x^2h = 250$                                             | 1/2 |
|          | $\Rightarrow C = \frac{40000 (250)^2}{x^4} + 5000x^2$       | 1/2 |
|          |                                                             |     |
| Ans(ii)  | (ii) $\frac{dC}{dx} = \frac{-160000 (250)^2}{x^5} + 10000x$ | 1   |
| Ans(iii) | (iii)(a)For minimum cost $\frac{dC}{dx} = 0$                | 1/2 |
|          | $\Rightarrow 10000x^6 = 250 \times 250 \times 160000$       |     |
|          | $\Rightarrow$ x = 10                                        | 1   |
|          | showing $\frac{d^2C}{dx^2} > 0$ at $x = 10$                 | 1/2 |
|          | $\therefore$ cost is minimum when $x = 10$                  |     |



|          | OR                                                                           |     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Ans(iii) | $(iii)(b)\frac{dC}{dx} = \frac{-160000 (250)^2}{x^4} + 10000x$               | 1/2 |
|          | $\frac{dc}{dx} = 0  \text{gives } x = 10$                                    | 1   |
|          | $\frac{dc}{dx} > 0$ in $(10, \infty)$ and $\frac{dC}{dx} < 0$ in $(0, 10)$ . |     |
| 037      | Hence, cost function is neither increasing nor decreasing for $x > 0$        | 1/2 |

Q37


An octagonal prism is a three-dimensional polyhedron bounded by two octagonal bases and eight rectangular side faces. It has 24 edges and 16 vertices.



The prism is rolled along the rectangular faces and number on the bottom face (touching the ground) is noted. Let X denote the number obtained on the bottom face and the following table give the probability distribution of X.

| X:    | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6     | 7      | 8          |
|-------|---|----|----|---|----|-------|--------|------------|
| P(X): | p | 2p | 2p | p | 2p | $p^2$ | $2p^2$ | $7p^2 + p$ |

An octagonal prism is a three-dimensional polyhedron bounded by two octagonal bases and eight rectangular side faces. It has 24 edges and 16 vertices.



The prism is rolled along the rectangular faces and number on the bottom face (touching the ground) is noted. Let X denote the number obtained on the bottom face and the following table give the probability distribution of X.

| X:    | 1 | 2  | 3  | 4 | 5  | 6     | 7      | 8          |
|-------|---|----|----|---|----|-------|--------|------------|
| P(X): | p | 2p | 2p | p | 2p | $p^2$ | $2p^2$ | $7p^2 + p$ |



| Ans(i)   |                                                                          |     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| Alls(I)  | $(i)10p^2 + 9p = 1$                                                      | 1/2 |
|          | $(i)10p^2 + 9p = 1$ $\Rightarrow p = \frac{1}{10}$                       | 1/2 |
|          |                                                                          |     |
| Ans(ii)  | $(ii)P(X > 6) = 9p^2 + p$                                                | 1/2 |
|          | $(n)^{p}(X > 0) = 9p^{-} + p$                                            | / 2 |
|          | $=\frac{9}{100}+\frac{1}{10}$                                            |     |
|          | $=\frac{19}{100}$                                                        | 1/2 |
| Ans(iii) |                                                                          |     |
|          | (iii)(a)P(X = 3 m) = P(3) + P(6)                                         | 1   |
|          | $\Rightarrow 2p + p^2 = \frac{21}{100}$                                  | 1   |
|          |                                                                          |     |
|          | OR                                                                       |     |
| Ans(iii) |                                                                          |     |
|          | (iii)(b)                                                                 |     |
|          | $E(X) = \sum XP(X) = p + 4p + 6p + 4p + 10p + 6p^2 + 14p^2 + 56p^2 + 8p$ | 1   |
|          | $=33p+76p^2$                                                             | 1/2 |
|          | $=\frac{406}{100}$ or $\frac{203}{50}$                                   | 1/2 |
|          |                                                                          |     |



| Q38     | A volleyball player serves the ball which takes a parabolic path given by the equation $h(t) = -\frac{7}{2}t^2 + \frac{13}{2}t + 1$ , where $h(t)$ is the height of ball at any time $t$ (in seconds), $(t \ge 0)$ . |     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | 2.43 m                                                                                                                                                                                                               |     |
|         | Based on the above information, answer the following questions:                                                                                                                                                      |     |
|         | <ul><li>(i) Is h(t) a continuous function? Justify.</li><li>(ii) Find the time at which the height of the ball is maximum.</li></ul>                                                                                 |     |
| Ans(i)  | $(i)h(t) = -\frac{7}{2}t^2 + \frac{13}{2}t + 1$                                                                                                                                                                      |     |
|         | Clearly h(t) is a polynomial function, hence continuous.                                                                                                                                                             | 2   |
|         | Hence h(t) is a continuous function.                                                                                                                                                                                 |     |
| Ans(ii) | (ii)For maximum height,                                                                                                                                                                                              |     |
|         | $\frac{dh}{dt} = 0 \Longrightarrow -7t + \frac{13}{2} = 0$                                                                                                                                                           | 1   |
|         | $\Rightarrow t = \frac{13}{14}$                                                                                                                                                                                      | 1/2 |
|         | $\frac{d^2h}{dt^2} = -7 < 0  \therefore \text{ height is maximum at } t = \frac{13}{14}$                                                                                                                             | 1/2 |
| 1       |                                                                                                                                                                                                                      | 1   |

